



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आश्विन 1945 (श0)

(सं0 पटना 817) पटना, सोमवार, 9 अक्टूबर 2023

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

9 अक्टूबर 2023

सं० 03/स्था०रा०अ०(66वीं-नियुक्ति)-70/2022-566(3)रा०—बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 66वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर आयोग के पत्रांक-7ए/सं०प्र०प०- 01-01/2020(33) लो०से०आ०/गो०, दिनांक-17.10.2022 के माध्यम से बिहार राजस्व सेवा के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु अनुशंसित निम्नांकित अभ्यर्थी को अधोलिखित शर्तों के अधीन पे मैट्रिक्स लेवल-7 (₹44,900-1,42,400) में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ परीक्ष्यमान राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के पद पर औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है :-

क्र० सं०	अनुक्रमांक	नाम, पिता/पति का नाम एवं स्थायी पता	गृह जिला	जन्म तिथि	मेधा क्रमांक	मूल आरक्षण कोटि	आयोग द्वारा आवंटित आरक्षण रोस्टर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	443506	श्री संजीव कुमार पिता—श्री शंकर प्रसाद, पता—मकान सं०-49, कौशल नगर, ऑफ पोलो रोड, पो०-जी०पी०ओ०, थाना—हवाई अड्डा, पटना, 800001	पटना	19.05.1991	281	04-अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	04-अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	

2. (i). नवनियुक्त अधिकारी को निदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना के निर्गत की तिथि से 07 (सात) दिनों के अन्दर, उप सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (मुख्य सचिवालय), बिहार, पटना के समक्ष में अपना योगदान निश्चित रूप से समर्पित करेंगे। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने की स्थिति में नियमानुसार अभ्यर्थित्व निरस्त करने की कार्यवाई की जा सकेगी।

(ii). नवनियुक्त अधिकारी योगदान के समय फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं इसकी एक-एक छायाप्रति प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

(iii). नवनियुक्त अधिकारियों का विभाग में योगदान की तिथि ही राजस्व सेवा में योगदान की तिथि मानी जाएगी। विभाग के स्तर से निर्गत अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर वेतनादि का भुगतान उनके नव पदस्थापन कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

(iv). नवनियुक्त अधिकारी को प्रवेशकालीन प्रशिक्षण (Induction Training) प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रवेशकालीन प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रम एवं स्थल की सूचना विभागीय वेब-साईट-www.lrc.bih.nic.in के माध्यम से दी जायेगी।

3. (i) नवनियुक्त अधिकारी का पूर्व वृत्त सत्यापन (Verification) प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में यह नियुक्ति औपबन्धिक रूप से की जाती है।

(ii) नवनियुक्त अधिकारी द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों के संबंध में कोई भिन्न सूचना पाये जाने एवं पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन में प्रतिकूल तथ्य प्रतिवेदित होने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी की सेवा नियमानुसार तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्यवाई भी की जाएगी।

(iii) नवनियुक्त अधिकारियों की परीक्ष्यमान अवधि 2 वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।

(iv) नवनियुक्त अधिकारी को फोटो युक्त नियुक्ति संबंधी अधिसूचना की प्रति उपलब्ध करायी जाएगी, जिसे मूल रूप में संबंधित जिला पदाधिकारी/सक्षम प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर ही उनका योगदान स्वीकृत किया जा सकेगा।

(v) नवनियुक्त अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग (तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प सं०-1919 दिनांक-18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने/न देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान करने के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

4. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5. नवनियुक्त अधिकारी को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान देने हेतु पदस्थापित स्थान पर आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

6. वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०-1964, दिनांक-21.08.2005 एवं पत्रांक-768 पे०को०, दिनांक-03.07.2007 के आलोक में नव नियुक्त पदाधिकारी की सेवा नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित होगी।

7. नवनियुक्त अधिकारी, यदि पूर्व में किसी नियोक्ता के अन्तर्गत सेवारत रहें हैं, योगदान के समय विरमन पत्र (Relieving Letter) प्रस्तुत करेंगे। अन्य सेवा से त्याग पत्र देने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा त्याग पत्र स्वीकृति से संबंधित पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

कंचन कपूर,

सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 817-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>